

Schaeffler India Limited · Pune · Maharashtra

**BSE Limited**

Phiroze Jeejeebhoy Towers,  
Dalal Street,  
Mumbai-400001

**Company Code: 505790**

**National Stock Exchange of India Limited**

Exchange Plaza, C – 1, Block G,  
Bandra-Kurla Complex, Bandra (E),  
Mumbai-400051

**Company Code: SCHAEFFLER**

28/01/2022

**Sub: Publication of Notice for transfer of Equity Shares to Investor Education and Protection Fund.**

Dear Sirs,

Pursuant to provisions of Regulation 30 of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, we enclose herewith the copies of the notice published in the Economic Times (English) and Prabhat (Marathi) for “Transfer of Equity Shares of the Company to Investor Education and Protection Fund”.

Kindly take the same on your records.

Thanking you.

Yours faithfully,

For **Schaeffler India Limited**

**Ashish Tiwari,**

VP - Legal & Company Secretary

Encl.: As above

# Crude Hits \$90 But Local Prices Unchanged


Prices in domestic market unlikely to go up ahead of assembly elections in five states next month, say industry executives; this would hit oil cos' margins

## Our Bureau

New Delhi: Oil prices have touched \$90 a barrel, the highest since October 2014, driven by geopolitical tensions in eastern Europe and the Middle East amid a tight supply. This hasn't impacted domestic fuel prices as they have stayed unchanged for nearly three months. Prices are unlikely to go up ahead of assembly elections in five states next month, industry executives said. This would mean erosion in margins for state oil companies. Geopolitical tensions between Russia and the Western powers over Ukraine have been the prime price driver in recent days. Russia has amassed a large number of troops on the Ukraine border, triggering warnings from the US that an invasion would be met with harsh sanctions. If

the situation escalates, it has the potential to upset the energy market as Russia is the largest exporter of natural gas to Europe and leads, along with Saudi Arabia, the group of producers which dominate the oil market. Rising tensions in the Middle East between Yemen's Houthis group on the one side and Saudi Arabia and the UAE on the other too have made the market nervous. An artificial production cap set by the producers' group led by Russia and Saudi Arabia too has contributed to the tight market even as global demand has been strongly recovering. Some members of the producers' group have found it hard to even meet their production quota, leading to lower than expected supplies. Once domestic companies start taking fuel prices, they will have wider inflationary effect on the economy.

## On the boil



## PUBLIC NOTICE

Take notice that Mr. Shabir Fida Hussain Kapasi and Mrs. Sara Shabir Kapasi residing at A-14, Hermes Complex, 6B Dhule Patil Road, Pune - 411001 have agreed with my client for the sale of their Flat No 72A measuring 1025 sq. ft. built up (i.e. 95.26 sq. mtr.) and Flat No. 72B measuring 1025 sq. ft. built up (i.e. 95.26 sq. mtr.), both situated on the 7th floor, along with the right to use and enjoy one slot car parking space bearing No. 5 situated on the ground floor in the complex known as Mit Riviera Co - Op Housing Society Ltd, situated at City Survey No. 12, Final Plot No. 237, Old Record Hall, Off Boat Club Road, Pune and within the limits of Municipal Corporation of the City of Pune, Taluka Pune City, District Pune. My client has been assured of a clear and marketable title, free from encumbrances and with vacant possession thereof. Any person's having any right, title, interest, claim or demand whatsoever in or upon the said Flats or Shares or car parking space or any part thereof should notify the same in writing (together with attested copy of documentary evidence in support thereof) to the undersigned within 15 days of the publication hereof failing which the transaction shall be concluded without reference to any such right, title and claim and the same, if any, shall be deemed to have been waived and/or abandoned. Dated this 27th day of January 2022.

Ashish Chakranarayan Advocate  
Off : No. 1, Gen. Bhagat Marg, Pune - 411001  
Email : ashishabc9@gmail.com

## SCHAEFFLER INDIA LIMITED SCHAEFFLER

Regd. Office: 13<sup>th</sup> Floor, ASTP (Amar Sadanand Tech Park), Baner, Pune, Maharashtra - 411045, India. Ph: +91-20-68189400  
Fax No: +91-20-68189405 • E-mail: investorsupport.in@schaeffler.com  
Website: www.schaeffler.co.in • CIN: L29130PN1962PLC204515

## NOTICE

Notice is hereby given that pursuant to the provisions of the Companies Act, 2013 read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 as amended from time to time ('Rules'), the details such as name, folio number / DP ID and Client Id, of the Shareholders of Schaeffler India Limited (Company), who have not cashed dividend for a continuous period of seven years ('Concerned Shareholders'), from year 2014 to 2020 have been uploaded on the website of the Company - www.schaeffler.co.in. The Company has completed dispatch of individual communication to the concerned Shareholders of the Company at their latest available address. The Rules require the Company to transfer, the shares of the concerned Shareholders held in physical form or in demat form, to IEPF Demat Account. The concerned Shareholders are therefore informed to promptly contact the Company at the registered offices or the Registrar and Share Transfer Agent of the Company - M/s. Link Intime India Private Limited at B Tower, 102 and 103, Shangri-la Complex, 1<sup>st</sup> Floor, Opp. HDFC Bank, Near Rabhakarshri Char Rasta, Akota, Vadodra - 390020, Tel No: 02625-6136600/2365733, e-mail: iepf.shares@linkintime.co.in to claim the unpaid dividend.

The concerned Shareholders are requested to note that the shares transferred to IEPF Demat Account can be claimed back from the IEPF Authority after following due procedure prescribed under the Rules. IMPORTANT NOTE - We draw your attention to SEBI Circular No. SEBI/HO/MISD/RTAM/P/CR/2021/655 dated November 3, 2021 that mandates all the listed companies to record the PAN, address with PIN code, Email address, Mobile Number, Bank Account details, Specimen Signature and Nomination by holders of physical securities. In view of the same, we request you to submit the KYC Form, duly completed along with Investor Service Request Form ISR-1 and the required supporting documents as stated in Form ISR-1 at the earliest to Link Intime India Private Limited. Please refer the website of Link Intime India Private Limited - https://web.linkintime.co.in/KYC-downloads.html. Shareholders who are yet to link the PAN with Aadhar number are requested to get the same done before March 31, 2022.

For Schaeffler India Limited  
Sd/-  
Ashish Tiwari,  
VP-Legal & Company Secretary

FORM 8 NOTIFICATION FOR EXPRESSION OF INTEREST (Under Regulation 3A (1) of the Insolvency and Bankruptcy Regulatory Proceedings for Corporate Persons) Regulations, 2016)	
RELEVANT PARTICULARS	
1. Name of the corporate debtor	1. Nishchit Steel Engineering Limited
2. Date of incorporation of corporate debtor	08/12/1984
3. Authority under which corporate debtor is incorporated/registered	ROC-Kolkata
4. Corporate identity number / Unique identification number of corporate debtor	L28999WB1984PLC13247
5. Address of the registered office of principal place of business of corporate debtor	Corporate 28, Economic Business Park, 11/72, Rajapur, Newtown, Kolkata, West Bengal - 700068
6. Financial commencement date of the corporate debtor	Date of Incorporation: 08/12/1984 Date of NCLAT or CoC/Insolvent Status: 28/01/2021
7. Total of financial statement of interest	28/01/2021
8. Eligibility of resolution applicant under section 25(2)(b) of the Code as available at:	The eligibility criteria are mentioned in the detailed Expression of Interest process document, a copy of which can be sought by email to: info@nclat.org
9. Name of the eligible applicant under section 25(2)(b) of the Code	Available at the website of IEPF (https://iepf.gov.in/iepf/faq.html)
10. Date of filing of resolution application	07/01/2022
11. Last date for receipt of expressions of interest	27/01/2022
12. Date of closure of the process of resolution application	28/01/2022
13. Last date for submission of objections to the resolution applicant	27/01/2022
14. Date of award of final list of prospective resolution applicants	30/01/2022
15. Date of award of final list of prospective resolution applicants	30/01/2022
16. Name of the resolution applicant	16/01/2022
17. Name of the resolution applicant	16/01/2022
18. Name of the resolution applicant	16/01/2022
19. Name of the resolution applicant	16/01/2022
20. Name of the resolution applicant	16/01/2022
21. Name of the resolution applicant	16/01/2022
22. Further details available at the website of the resolution applicant	Other details can be sought by email to: info@nclat.org or https://www.nclat.org
23. Date of publication of Form 8	28/01/2022

## Banks Kick Off Talks with NESL to Set Up Loan Registry, Information Utility

New Delhi: Banks are in discussion with National e-Governance Services Limited (NESL) to explore the possibility of establishing a loan registry and developing an information utility which will store financial data such as borrowings, default and security interests among other details. "The aim is to increase the efficiency in exchange of information in the consortium arrangement," said a senior bank executive aware of the developments. Under the proposed structure will provide for loan identity number, monitoring mechanism, stock statement maintenance and DP allocation. "This will ensure receiving and storage of common information and providing access to it on a need-to-know basis," he added. Another executive aware of the deliberations said that the discussions are preliminary and that the Indian Banks' Association or IBA will take a final call on the matter. "We will be exploring the synergies between loan registry and the information utility or IU function," he added. Banks are already working out the contours of syndicate loan arrangements for loan value Rs 2,000 crore and above, which will include single point inspection of syndicated loan accounts and norms for a more structured approach by lenders to take care of the entire life cycle of the loan.

The aim is to address the existing shortcomings in the existing arrangements for credit delivery and to improve efficiency, uniformity, information dissemination and facilitate single point inspection by regulators. IBA in a report has also recommended strengthening the current ecosystem for the syndicated loan system along with it to existing international models such as being practised in more developed financial markets. "We will be working on the creation of infrastructure like information portal, drafting of common documents and identification of service providers," said the second executive quoted above adding they are also working with NESL on issuance of electronic bank guarantee (eBG).

Info Exchange  
Banks, NeSL begin discussions  
To provide mechanism for loan identity number & monitoring  
Will help in syndicate loan arrangements  
IBA to take a final call on the matter  
Working with NeSL on issuance of electronic bank guarantee

## International Gas Crunch Hits LNG Import Terminals

Skyl-high spot prices have curbed imports

New Delhi: Global gas crunch is hurting Indian LNG import terminals as skyl-high spot prices have curbed imports, which can push into doubt the country's plans to aggressively add capacity. Shell's \$5.2 million tonnes a year (mt/yr) LNG terminal at Hazira, the country's second largest, uses 85% of its capacity this financial year from April through December against 89% in the same period last year. Capacity utilisation at Petronet LNG's terminal at Daheji (17.2 mt/yr), the country's largest, also dropped 6% to 90% this year. Domestic customers' aversion to pricey spot LNG cargoes caused a decline in business at these terminals, according to industry executives who didn't want to be named. Shell terminal's almost complete dependence on the spot and short-term cargoes showed up in a much sharper drop in business than Petronet's terminal that has been saved by the volumes procured under long-term contracts where price increases haven't been as sharp, they said. Long-term LNG imported from Qatar is linked to crude prices and currently costs about \$11 per mmBtu while spot LNG costs \$20 currently and has stayed above \$30 for months this year. A 21% jump in domestic gas production also helped replace LNG import, which has dropped 3% this year. Shell's terminal lost business from Reliance Industries, a key customer, which began using more domestic gas, according to executives cited earlier.

**LIC HFL**  
LIC HOUSING FINANCE LTD

**6.70% Onwards**

Exclusive Griha Varishtha Home Loan scheme for retired pensioners and benefited individuals having pension salary with loan tenure upto attainment of 80 years of age

\*Limited period offer

14% Net Interest Income (NI) (YoY)

11% Outstanding Loan Portfolio (YoY)

Terms & Conditions Apply

**LIC Housing Finance Ltd.**  
CIN: L65922MH1989PLC05257  
Registered Office: Bombay Life Building, 2<sup>nd</sup> Floor, 45/47, Veer Nariman Road, Fort, Mumbai-400001 Tel: +91-22-22049919, 22049799, Fax: +91-22-22049682  
Corporate Office: 13<sup>th</sup> Floor, Maker Tower, 'F' Premises, 13<sup>th</sup> Floor, Cuffe Parade, Mumbai-400005, Tel: +91-22-22178600, Fax: +91-22-22178777  
Email: lichousing@lichousing.com, Website: www.lichousing.com

**STATEMENT OF STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2021** (₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	5,079.39	4,923.99	19,847.69
2	Net Profit for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	961.85	969.64	3,348.57
3	Net Profit for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	961.85	969.64	3,348.57
4	Net Profit for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	767.33	727.04	2,734.34
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	767.08	721.37	2,731.94
6	Paid up Equity Share Capital	110.08	100.99	100.99
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as at March 31, 2021	-	-	20,420.32
8	Securities Premium Account	4,031.72	1,705.29	1,705.29
9	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) * (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	13.95 *	14.41 *	54.18

Notes  
1 The figures for the previous periods have been regrouped / reclassified / restated wherever necessary in order to make them comparable with figures for the current period ended December 31, 2021.  
2 The above is an extract of the detailed format of Quarterly / Annual Standalone Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, as amended. The full format of the Quarter / Nine Months / Annual Standalone Financial Results are available on the Stock Exchanges - National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and Company's website www.lichousing.com.

**STATEMENT OF CONSOLIDATED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER ENDED DECEMBER 31, 2021** (₹ in Crore)

Sr. No.	Particulars	Quarter ended	Quarter ended	Year ended
		December 31, 2021	December 31, 2020	March 31, 2021
		Unaudited	Unaudited	Audited
1	Total Income from Operations	5,078.68	4,926.65	19,880.22
2	Net Profit / (Loss) for the period (before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items)	967.57	970.08	3,365.13
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	967.57	970.08	3,365.13
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	771.32	721.11	2,741.13
5	Total Comprehensive Income for the period (Comprising Profit / (Loss) for the period (after tax) and Other Comprehensive Income (after tax))	770.37	713.69	2,740.29
6	Paid up Equity Share Capital	110.08	100.99	100.99
7	Reserves (excluding Revaluation Reserves) as at March 31, 2021	-	-	20,500.44
8	Securities Premium Reserve	4,047.52	1,721.09	1,721.09
9	Earning Per Share (of ₹ 2/- each) * (for continuing and discontinued operations) Basic & Diluted	15.28 *	14.29 *	54.32

Notes  
1 The figures for the previous periods have been regrouped / reclassified / restated wherever necessary in order to make them comparable with figures for the current period ended December 31, 2021.  
2 The above is an extract of the detailed format of Annual Consolidated Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Annual Consolidated Financial Results are available on the Stock Exchanges - National Stock Exchange (NSE), Bombay Stock Exchange (BSE) websites www.nseindia.com, www.bseindia.com and Company's website www.lichousing.com.

For and on behalf of the Board  
Sd/-  
Y. Viswanatha Gowd  
Managing Director & CEO

Place : Mumbai  
Date : January 27, 2022

Apply for Home Loan on LIC HFL HomY App. / Message "New Home Loan" through 83699 98182

